



शून्य से शिखर (Reach to the max)

सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बिना लक्ष्य के आप कुछ नहीं कर सकते। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हुए, जरूरी यह है कि उस लक्ष्य के लिए आपने कितनी मेहनत करी।

जिन्दगी में यह जरूरी है कि आप उतने सफल हो सके जितना हो सकते थे। आप जिस भी प्रोफेशन में रहो, टाप पर जाने के लिए मेहनत करो। जो काम नहीं आता उसे इतनी बुरी तरह से करे कि वो आपको आने लगे। जो चीज नहीं आती उसे सीखे, खुद पर काम करें। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता , जरूरी यह है कि जो भी निर्णय ले उसे सही करके दिखाए। छोटे - छोटे प्रयास अगर आप रोज करें तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है ।

कुछ बड़ा पाने के लिए आपको छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अपनी पर्सनल परेशानियों को प्रोफेशनल लाइफ से न जोड़े। सफलता पाने के लिए कठिन निर्णय ले, कठिन निर्णय लेने से जिन्दगी सरल हो जाती हैं , सरल निर्णय लेने से जिन्दगी कठिन हो जाती हैं। लगातार छोटे-छोटे प्रयासों से ही आप सफल बन सकते हैं। जो भी काम करे पूरी लगन और ईमानदारी से करें तो सफलता जरूर मिलेगी। दुनिया में बड़े काम करनेवाले महान लोगों ने ऐसी तन्मयता और लगनशीलता का परिचय देते हुए ही अपने लक्ष्य को हासिल किया है।

CS Praveen Soni
Central Council Member &
Chairman, ICSI-CCGRT